

BSE Scrip Code : 536264
NSE Symbol : TIGERLOGS



13th February 2026

To,
BSE Ltd.,
P J Tower, Dalal Street,
Mumbai 400001.

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400051

Sub: Submission of Newspaper Clipping for the publication of Financial Results.

Dear Sir,

This is in reference to the captioned subject, please find the enclosed newspaper clipping of Financial Results.

1. English Daily: "Financial Express".
2. Hindi Daily: "Jan Satta".

You are requested to kindly take the aforesaid information on your records and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You

For Tiger Logistics India Limited

Vishal Saurav
Company Secretary & Compliance Officer

Registered office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi -110020 (India).

Tel.: +91-11-47351111, Fax: +91-11-26229671; 26235205

Email: csvishal@tigerlogistics.in Website: www.tigerlogistics.in

CIN: L74899DL2000PLC105817

CAN FIN HOMES LTD.
First Floor, Saroha Complex, Malik Colony Gohana Road
Near Chhotu Ram Chowk Sonapat Haryana 131001
Ph: 0130-2235101, M. 7825079179
Email: sonapat@canfinhomes.com CIN No. L85110KA1987PLC008899

POSSESSION NOTICE [Rule 8(1)] [For Immoveable Property]
The undersigned being the Authorized Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01.12.2025 calling upon the borrowers **Mr. Vikas Kumar S/o Kartar Singh (Borrower) and Mrs. Bhateri Devi W/o Vikas Kumar (Co-Borrower)** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs 24,84,338/- (Rupees Twenty Four Lakh Eighty Four Thousand Three Hundred Thirty Eight Only)** with further interest at contractual rates, till date of realization within 60 days from the date of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this **09th day of February, 2026**.
The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CFHL for an amount of **Rs 24,84,338/- (Rupees Twenty Four Lakh Eighty Four Thousand Three Hundred Thirty Eight Only)** and interest thereon.

Description of Immoveable property
A House having an extent area of 150 Sq.Yds. of property situated at KHEWAT NO 4354, KHAT NO 4775, RECTANGLE & KILLA NO 180/18/1(2-15) SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF GOHANA IN AABADI DEVIPURA GOHANA SONEPAT HARYANA 131301.

NORTH: Gali. SOUTH: Other Property.
EAST: House Of Choti Devi. WEST: Gali.
Date: 12.02.2026, Place: Sonapat
Sd/-, Authorised Officer, Can Fin Homes Ltd.

FORM NO.14
[See Regulation 33(2)]
By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1)
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001
DEMAND NOTICE U/S 25 TO 28

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/6/2025 09-02-2026

PUNJAB NATIONAL BANK
Versus
SH. PIYUSH KUMAR VERMA.

To, **SH. PIYUSH KUMAR VERMA. S/O SH. SHYAM NAND VERMA H. No. 589, SECTOR-9, GURUGRAM, HARYANA-122001-122001. Also At: DELPHICINDIA PVT LTD HANS RAM MARKET, UDYOG VIHAR SECTOR 18 SMT.BABITA GAUBA @ BABITA VERMA-122001**

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1) in TA/2356/2022 an amount of **Rs 9011930.5 (Rupees Ninety Lakhs Eleven Thousands Nine Hundred Thirty And Paise Fifty Only)** along with pendente lite and future interest @ 11.60 % Compound Interest Monthly w.e.f. 01.11.2021 till realization and costs of **Rs 93000 (Rupees Ninety Three Thousands Only)** has become due against you (Jointly and severally).
2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of your assets on or before the next date of hearing.
4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **07/03/2026** at 10:30 a.m. for further proceedings.
5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:
(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution proceedings.
(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **09/02/2026**.

RECOVERY OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1)

SAVE FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
Corporate and Registered Office:- Unit No. 782, 7th Floor, Vegas Mall, Plot No. 6, Sector 14, Dwarka, New Delhi 110075. Website:-https://www.savefinance.in
Contact Person - Pintu Kumar- 8510889752

POSSESSION NOTICE[Appendix IV Rule 8(1)]

Whereas the Authorized Officer of Save Financial Services Pvt. Ltd. (Formerly known as Karmayog Finance India Pvt. Ltd.), a Non-Banking Financial Company duly incorporated and registered under the Companies Act, 1956, having its Corporate and Registered Office at: Unit No. 782, 7th Floor, Vegas Mall, Plot No. 6, Sector-14, Dwarka, New Delhi-110075, Regional Corporate Office at: AHO, 2nd Floor, Save Tower, Opp. Khushi Restaurant, Near Asha Singh More, A.P. Colony, Gaya, Bihar-823001, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 04-12-2025, calling upon the borrower to repay the amount mentioned therein.

To,
1.MR. RAKESH KANNOJIYam R/o Khasra No. 104, Plot No. 8, Nalanda, Ashiyana Phase-1, Village Rajrai, Tehsil & Distt. Agra Uttar Pradesh - 282009
Mob:- 9058482110. **ALSO At: Maa Gayatri Fiber Glass:-H. No. 3114, Gummat Rajpurchunge Petrol Pump, Shamsabad Road Agra, U.P. - 282001**

2.MRS. MONA KANNOJIYA, R/o Khasra No. 104, Plot No.8, Nalanda Ashiyana Phase-1, Village Rajrai, Tehsil & Distt. Agra Uttar Pradesh-282009

3.RUPAL KANNOJIYA, R/o Khasra No.104, Plot No. 8, Nalanda Ashiyana Phase-1, Village Rajrai, Tehsil & Distt. Agra Uttar Pradesh - 282009

4.BHAGWAN DEVI, R/o Khasra No.104, Plot No. 8, Nalanda, Ashiyana Phase-1, Village Rajrai, Tehsil & Distt. Agra Uttar Pradesh - 282009

To repay the amount mentioned in the notice i.e. **Rs. 20,10,347.78/- (Rupees Twenty Lakhs Ten Thousand Three Hundred Forty Seven and Seventy Eight Paise Only)** along with applicable interest and other charges within sixty (60) days from the date of receipt of the said notice vide Loan Number (LOANAAGR000830)

Since the Borrower has failed to repay the said amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereunder in exercise of powers conferred under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 06 day of February, 2026.

The Borrower and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property, and any dealings with the property shall be subject to the charge of SAVE Financial Services Pvt. Ltd. for an amount of **Rs. 20,10,347.78/-** as on 03-12-2025, along with applicable interest and other charges.

The attention of the Borrower is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY / SECURED ASSET

One unit of building bearing Number-08, situated in Khasra No.104, admeasuring 43.48 square meters, located at Nalanda Ashiyana Phase-1, Village Rajrai, Tehsil & District Agra, whose boundaries are given below and clearly shown in the attached map marked in red. The covered area of the property is 28.24 square meters. **Boundaries:East: Property No. 9, West: Property No. 7, North: Other Property, South: 9.14-meter wide road and exit**

Place: Agra
Date: 12-02-2026
Authorized Officer
Save Financial Services Pvt. Ltd.

SKYLINE INDIA LIMITED					
CIN:L46419DL1996PLC075875					
Regd Office: House No 11434 Back Portion Ground Floor, Shakti Nagar (North Delhi), North Delhi, India, 110007					
Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No.: +91 11 23541110; Website: www.skylineindia.co.in					
STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2025					
S. NO.	Particulars	(Rs. in Lacs)			
		Quarter ended		Year ended	
		31-Dec-25 (Quarter)	31-Dec-25 (Year to Date)	31-Dec-24	31-Mar-25
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations (net)	-	0.99	1.03	35.11
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	(3.08)	(6.10)	(3.53)	0.22
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(3.08)	(6.10)	(3.53)	0.22
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(3.05)	(6.01)	(3.45)	0.33
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	-	-	-	-
6	Equity Share Capital	398.26	398.26	425.91	398.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	(318.00)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operation)	(0.08)	(0.15)	(0.08)	0.01
	Basic:	(0.08)	(0.15)	(0.08)	0.01
	Diluted:	(0.08)	(0.15)	(0.08)	0.01

NOTE:
1. The above unaudited financial results for quarter ended on December 31, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on February 12, 2026 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on the same day.
2. The Statutory Auditors of the Company have conducted a "Limited Review" of the financial results for quarter ended on December 31, 2025.
3. This statement of unaudited results for the quarter ended December 31, 2025 is in compliance with Indian Accounting Standards (IND AS) as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016.
4. The Company has single reportable segment as defined in Indian Accounting Standard 108, therefore segment reporting is not applicable to the Company.
5. Figures of previous period have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current year classification.
6. EPS is calculated in accordance with Indian Accounting Standard 33 issued by ICAI.

Place: New Delhi
Date: 12.02.2026
For Skyline India Limited
Sd/-
DINESH KUMAR SHINDI
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIES INDIA LIMITED
Regd. Off.: Plot No 1, Roj-Ka-Meo Industrial Area, Sohna, District-Nuh, Haryana-122103
CIN : L74210HR1984PLC032293 www.rasandik.com

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2025						
SL. No.	Particulars	(Rs. in lakhs)				
		Three Months Ended		Nine months ended		Year Ended
		31.12.2025 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	30.06.2024 Unaudited	31.12.2025 Unaudited	31.03.2025 Audited
1	Total Income	2,220.18	1,267.76	1,436.67	4,875.32	5,506.96
2	Profit / (Loss) before tax	(108.85)	(196.17)	(1,048.23)	(453.17)	(1,341.50)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(82.92)	(213.46)	(312.16)	(408.69)	(447.93)
4	Total Comprehensive Income for the period (net of tax) (OCI)	(82.92)	(213.46)	(312.16)	(408.69)	(447.93)
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	597.50	597.50	597.50	597.50	597.50
6	Other Equity	-	-	-	-	8,944.10
7	Basic and Diluted Earnings Per Share for the period (Rs.)	(1.39)	(3.57)	(5.22)	(6.84)	(7.50)
		(1.39)	(3.57)	(5.22)	(6.84)	(7.50)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Investor Section of our website www.rasandik.com and under Corporate Section of BSE Limited at www.bseindia.com.
2. The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 12 February, 2026

For and on behalf of the Board of Directors
Rasandik Engineering Industries India Limited
Rajiv Kapoor
Chairman & Managing Director
(DIN:00054659)

Place : New Delhi
Date : 12-02-2026

TIGER LOGISTICS INDIA LIMITED
CIN: L74899DL2000PLC105817
Regd. Office: D-174, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.
Tel-011-47351111, Fax:011-26229671,26235205,Website: www.tigerlogistics.in, Email: csvishal@tigerlogistics.in

Statement of Un-Audited Financial Results for the Period Ended 31st December 2025.						
S. No.	Particulars	(Rs in Lakhs)				
		Quarter ended		Nine months ended		Year Ended
		31.12.2025 Un-Audited	31.12.2025 Un-Audited	30.09.2025 Un-Audited	31.12.2025 Un-Audited	31.03.2025 Audited
1.	Total Income from Operations	13,902.45	41,027.42	16,873.10	53,630.50	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	781.61	2,609.09	1,197.69	3,609.14	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	781.61	2,609.09	1,197.69	3,609.14	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	593.77	1,926.31	861.9	2,700.80	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	615.05	1,984.69	875.42	2,702.47	
6.	Equity Share Capital	1057.25	1057.25	1057.25	1,057.25	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	12,772.87	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.58	1.88	0.83	2.56	
	1. Basic:	0.58	1.88	0.83	2.56	
	2. Diluted:	0.58	1.88	0.83	2.56	

Notes:
1. The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31st, 2025, of Tiger Logistics (India) Limited (the "Company") have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 12th February 2026, in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditor of the Company has carried out Limited Review of the aforesaid results.
2. These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards 34 — Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principle generally accepted in India and in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended.
3. The figures for the corresponding previous periods have been regrouped/reclassified wherever necessary, to make them comparable.
4. The above unaudited Financial Results of the Company are available on the Company's website www.tigerlogistics.in and on the website of BSE and NSE i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively where the shares of the Company are listed.

For Tiger Logistics (India) Limited
Sd/-
Harpreet Singh Malhotra
Managing Director (DIN: 00147977)

Place: New Delhi
Date: 12.02.2026

Paramount Communications Limited
Regd. Office: KH-433, Maulsari Avenue, Westend Greens, Rangpuri, New Delhi-110037.
Phone: 91-11-45618800; Web: www.paramountcables.com
CIN: L74899DL1994PLC061295

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 ST DECEMBER, 2025											
(Rs. in Crores except per share data)											
Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED					
	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2025
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	460.42	427.57	386.39	1,338.86	1,051.80	1,556.66	460.92	428.00	391.64	1,340.04	1,068.58
Profit/(Loss) from ordinary activities after finance costs but before exceptional items	10.35	17.82	30.44	53.85	85.22	110.60	10.34	17.80	30.53	53.33	85.55
Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	10.35	17.82	30.44	53.85	85.22	110.60	10.37	17.80	30.53	53.36	85.55
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	7.46	13.26	22.53	39.72	67.99	86.72	7.48	13.25	22.60	39.23	68.24
Other comprehensive income/(loss)	0.36	(0.01)	(0.13)	0.34	(0.40)	(0.04)	0.36	(0.01)	(0.13)	0.34	(0.40)
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/ (Loss) and other comprehensive income for the period)	7.82	13.25	22.40	40.06	67.59	86.68	7.84	13.24	22.47	39.57	67.84
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- Per Equity Share)	61.04	61.01	60.99	61.04	60.99	61.01	61.04	61.01	60.99	61.04	60.99
Other Equity Excluding revaluation Reserve						655.69					656.18
Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (Not Annualised):											
a) Basic:	0.24	0.44	0.74	1.30	2.23	2.85	0.25	0.43	0.74	1.29	2.24
b) Diluted:	0.24	0.44	0.74	1.30	2.23	2.85	0.25	0.43	0.74	1.29	2.24

The above is an extract of the detailed format of the unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly unaudited Financial Results are available on company's website at www.paramountcables.com and the stock exchange's websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com.

By and on behalf of the Board
For PARAMOUNT COMMUNICATIONS LTD.
Sd/-
Sanjay Aggarwal
Chairman & CEO
DIN: 00001788

Place: New Delhi
Date: 12.02.2026

SMFG India Home Finance Co. Ltd.
Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.
Regd. Off.: Commerzone IT Park, Tower B, 1st Floor, No. 111, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai - 600116, TN.

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY [(Appendix IV) Rule 8(1)]
WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Co. Ltd. a Housing Finance Company (duly registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI)) (hereinafter referred to as "SMHFC") under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has Taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of "SMHFC" for an amount as mentioned herein under and interest thereon.

Sl. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) LAN	Description of Secured Assets (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1.	Lan :- 610339211232501 & 610339511278341 1. Mohammad Jafar S/o. Mohammad. Wakar 2. Gudiya W/o. Mohammad Jafar	House Bearing Old No.7487/8105 & New No. 42/214, Measuring Area 196.57 Sq. Meter, Situated At Billochpura, Lahomandi Ward Tehsil & Distt. Agra Bound As East :- House Of Smt Mushart Begam, West :- House Of Chhunu, North :- House Of Jahanger, South :- Gali 19.6 Fit Wide & Nikash	13.11.2025 Rs. 28,84,778.87 (Rs. Twenty Eight Lakh Eighty Four thousand and Hundred Seventy Eight & Paise Eighty Seven Only) as on 13.11.2025	07.02.2026



RAM RATNA WIRES LIMITED
(CIN: L31300MH1992PLC067802)
Regd. Off.: Ram Ratna House, Victoria Mill Compound (Utopia City),
Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400 013.
Tel: +91 - 22 - 6828 6000
Website: www.rmrshramik.com • Email Id: investorrelations.rwl@rglobal.com •

Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities
Pursuant to SEBI Circular dated January 30, 2026, a Special Window is introduced for transfer and dematerialisation ("demat") of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019, which will remain open upto **February 04, 2027** and will be applicable in following cases:
1. Where original share transfer request(s) are not lodged prior to April 01, 2019 and the shareholder is holding original share certificate;
2. Where original share transfer request(s) were lodged prior to April 01, 2019 and those were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.
Accordingly, eligible shareholders are encouraged to re-lodge them along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e., Datamatics Business Solutions Limited at Plot No. A 16 & 17, Part B Cross Lane, MIDC, Andheri East, Mumbai – 400093, Email at: investorsgrv@datamaticsbpm.com.
Please note that these shares shall be mandatorily credited to the transferee, only in demat mode and shall be under lock-in for a period of **one year from the date of registration of transfer**. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.

For Ram Ratna Wires Limited
Sd/-
Place : Mumbai
Dated: February 12, 2026
Saurabh Gupta
AGM - Company Secretary



एकिसस बैंक लि०
रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5 बी सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010
रजिस्टर्ड ऑफिस: "त्रिभुल"- तृतीय तल, सम्मेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

माँग नोटिस
बुकि यहाँ नीचे वर्णित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/जमानकर्ताओं/बन्धककर्ताओं ने एक्सिस बैंक लि० से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी तथापि हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी उधारकर्ता/जमानकर्ता/बन्धककर्ता नियत तिथियों के अनुसार मूलधन तथा ब्याज का प्रतिभुगतान करने में विनिम्न प्रकार की चुके कर चुके हैं। अतएव उनके खातों को वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकर्ण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत एक्सिस बैंक लि० के प्राधिकृत अधिकारी के अनुशंगानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालननुसार वहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर **000/अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है**, जिसके अनुपालन के लिए उन्हें सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(12) के अंतर्गत यहाँ नीचे वर्णित संबंधित तिथि पर मांग सूचना नियमित की गई थी, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/जमानकर्ताओं/बन्धककर्ताओं को सूचना की जा रही है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति की रीशमी (मौचन) कर सकते हैं।
कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत कोई भी नोटिफी बैंक को पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विषय, पट्टा के माध्यम से अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
दिनांक: 13.02.2026

खातेदार/सह-ऋणी/ जमानकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित/बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया धनराशि 000/एनपीए दि. मांग सूचना दिनांक	
		रु०	रि. 09.02.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्च
जहीर अहमद (आवेदक) पुत्र श्री अकबर अली पता: 1. 3031/7 विजय खंड निक्ट लोहिया पार्क, गोमती नगर, लखनऊ, उडप० 226010, पता: 2. प्लॉट नं० बी-3/498, कोड 0414 लखनऊ, उडप०, एरिया: 385.20 टर्ग. मी., सम्पत्ति जहीर अमद के नाम, 226010, पता: 3. 28 पैदरिया गौर आरएस हररया बस्ती, उडप०-272163, श्रीमती सावा कोशर (सह-आवेदक) पत्नी जहीर अहमद पता: 1. 3031/7 विजय खंड निक्ट लोहिया पार्क, गोमती नगर, लखनऊ, उडप० 226010, पता: 2. 28 पैदरिया गौर आरएस हररया बस्ती, उडप०-272163	भूति/सम्पत्ति रियायरी प्लॉट नं० बी-3/498, विक्रय खंड, गोमती नगर (बी. कोड 0414) लखनऊ, उडप०, एरिया: 385.20 वर्ग मी., सम्पत्ति जहीर अमद के नाम, चौधदरी:- पूर्व-प्लॉट नं० 3/497, पश्चिम-प्लॉट नं० 3/498, उत्तर-9 मीटर चौड़ा रोड, दक्षिण-रेलवे भूमि।	रु० 88,64,971.03	रि. 09.02.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्च
		08.02.2026	09.02.2026

उपयुक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत एतद्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं तथा/अथवा उनके जमानकर्ताओं (जहाँ कहीं लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भावी ब्याज तथा यथा लागू प्रभारों के साथ उपर्युक्तानुसार बकाया देयकराशियों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है । ऐसा करने में विफल होने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के समाप्त के उपरांत प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कारवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अन्तर्गत यथा लागू नियमावली के अधीन उधारकर्ताओं और बन्धककर्ताओं की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा लिया जाना भी सम्मलित होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बन्धककर्ता एवं जमानतकर्ताओं का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(6) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति की रीशमी (मौचन) कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत कोई भी नोटिफी बैंक को पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विषय, पट्टा के माध्यम से अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। दिनांक: 13.02.2026	प्रो0 अधिकारी) एक्सिस बैंक लि०
---	--------------------------------



TIGER LOGISTICS INDIA LIMITED
CIN- L74899DL2000PLC105817
Regd. Office: D-174, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.
Tel-011-47351111, Fax:011-26229671,26235205,Website: www.tigerlogistics.in, Email: csvishal@tigerlogistics.in

Statement of Un-Audited Financial Results for the Period Ended 31st December 2025.

(Rs in Lakhs)					
S. No.	Particulars	Quarter ended 31.12. 2025	Nine months ended 31.12.2025	Quarter ended 30.09.2025	Year Ended 31.03.2025
		Un-Audited	Un-Audited	Un-audited	Audited
1.	Total Income from Operations	13,902.45	41,027.42	16,873.10	53,630.50
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	781.61	2,609.09	1,197.69	3,609.14
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	781.61	2,609.09	1,197.69	3,609.14
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	593.77	1,926.31	861.9	2,700.80
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	615.05	1,984.69	875.42	2,702.47
6.	Equity Share Capital	1057.25	1057.25	1057.25	1,057.25
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	12,772.87
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic:	0.58	1.88	0.83	2.56
	2. Diluted:	0.58	1.88	0.83	2.56

- Notes:-**
- The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31st, 2025, of Tiger Logistics (India) Limited (the "Company") have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 12th February 2026, in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditor of the Company has carried out Limited Review of the aforesaid results.
 - These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principals laid down in Indian Accounting Standards 34 — Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principal generally accepted in India and in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended.
 - The figures for the corresponding previous periods have been regrouped/reclassified wherever necessary, to make them comparable.
 - The above unaudited Financial Results of the Company are available on the Company's website www.tigerlogistics.in and on the website of BSE and NSE i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively where the shares of the Company are listed.

Place: New Delhi
Date: 12.02.2026



For Tiger Logistics (India) Limited
Sd/-
Harpreet Singh Malhotra
Managing Director (DIN: 00147977)

MGM REALTORS PRIVATE LIMITED
REGD. OFFICE : 236 A, DLF South Court, Saket District Centre, Saket, South Delhi, India, 110017
CIN: U45200DL2008PTC181473 Email I d.: mgmrealtor12@gmail.com

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2025
Amount in lacs Rs.


Sl. No	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended 31.03.2025
		31.12.2025 (Un-Audited)	30.09.2025 (Un-Audited)	31.12.2024 (Un-Audited)	31.12.2024 (Un-Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	-	-	-	-	17.37
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(70.69)	(69.25)	(64.28)	(208.55)	(202.47)
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(70.69)	(69.25)	(64.28)	(208.55)	(202.47)
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(70.69)	(69.25)	(64.28)	(208.55)	(202.47)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(70.69)	(69.25)	(64.28)	(208.55)	(202.47)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs. 1/- each)	277.90	277.90	277.90	277.90	277.90
7	Other equity excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	-10,856.27	-10,785.58	-10,637.03	-10856.27	(10,647.71)
8	Net worth	(10,578.37)	(10,507.68)	(10,359.13)	(10,578.37)	(10,369.81)
9	Paid up Debt Capital	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
10	Debt Equity Ratio	17.26	16.40	15.09	17.26	15.09
11	EPS(of Rs 10/- each) basic & diluted	(2.54)	(2.49)	(2.31)	(7.50)	(6.90)
12	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-
13	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-
14	Debt Service Coverage Ratio	0.00	0.00	0.00	0.000	0.002
15	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA

Notes:-

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors in their meeting held on Feb 11th, 2026 and approved by Board of Directors in their meeting held on Feb 11th, 2026.
- The above is an extract of the detailed unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full formats of the same are also available on the website of the Company and the website of BSE.

For MGM REALTORS PRIVATE LIMITED
Sehar Shamim
Director
DIN:09503621

Place: New Delhi
Date: 11-02-2026



कक्षा सुघला

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्थियों के प्रतिभूतिकर्ण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आश्वासन किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के सम्बन्धित लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागान, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले व्यय का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक	दिनांक/समय एवं कब्जे का प्रकार
1	45289430001217	1) श्री अजय (आवेदक), 2) श्रीमती देवन्ती कोर (सह-आवेदक)	21.10.2025 रु.20,76,197/- (केवल बीस लाख पचास हजार एक सौ सत्तानवे रुपये) दिनांक 20.10.2025 तक	दिनांक: 12.02.2026 समय: सुबह 8:55 बजे प्रतीक्षालय कक्षा


सुरक्षित संपत्ति का विवरण : 800 वर्ग गज क्षेत्रफल का भूखंड/संपत्ति, अर्थात् 1 कनाल 6 मरला 5 सरसवाई (800 वर्ग गज), जो 2002 कानून 13 मरला में से 53/8106 हिस्सा है, खेवट संख्या 2 किले-31 में स्थित है, जो ग्राम गंगरीना, तहसील घरीदा, जिला करनाल में है (घरिया विचल संख्या 1661 दिनांक 28-09-2023 में अधिक विस्तार से वर्णित है, जो एस.आर. घरीदा कार्यालय में पंजीकृत है)। श्रीमती देवन्ती, पत्नी श्री सुखरामपाल की स्वामित्व वाली संपत्ति।

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अंतर्गत होगा।

स्वाम्य करनाल,
दिनांक: 13.02.2026,

हस्ता/—प्राधिकृत अधिकारी,
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वित्तियिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतः, सर्व नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ जेमनूर, कोयमंगला इनर रिंग रोड, इंडीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चलाघटा, बंगलौर-560071 शाखा कार्यालय : 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यूई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005।



DCM LIMITED

पंजी. कार्यालय: 2060-2082, दुसरा तल, प्लाजा-2, सेंट्रल स्क्वायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदू बाड, दिल्ली-110006
ई-मेल: investors@dcml.in **फोन:** 011-41599170 **CIN:** L74899DL1889PLC000004


31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए स्टैंडअलोन और कंजोसिडेटेड अनकंजित वित्तीय परिणामों का सारांश
[चर्ची (सूचीबद्धता वाधित और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियमन 47 (1) (बी) के अनुसार]


क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन					कंजोसिडेटेड				
		समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त नौमाही के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त नौमाही के लिए		समाप्त वर्ष के लिए
		दिसम्बर 31, 2025	वितम्बर 30, 2025	दिसम्बर 31, 2024	दिसम्बर 31, 2025	दिसम्बर 31, 2024	दिसम्बर 31, 2025	वितम्बर 30, 2025	दिसम्बर 31, 2024	दिसम्बर 31, 2025	वितम्बर 31, 2024
		अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित
1	प्रचालन से कुल आय	-	12	27	19	27	27	1,768	1,762	1,734	5,291
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले)	(363)	141	203	(415)	(251)	152	32	170	2,122	590
3	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(363)	141	203	(415)	(251)	152	(30)	145	2,056	439
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(व्यय) [कर के बाद अवधि के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय/(व्यय) शामिल]	(365)	141	218	(417)	(207)	174	(21)	145	2,071	448
5	इक्विटी शेयर पूंजी	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868
6	अन्य इक्विटी						(915)				2,424
7	प्रति इक्विटी शेयर (ईपीएस) आय/(हानि) 10 रुपये प्रत्येक (वार्षिकीकृत नहीं)	(1.94)	0.76	1.08	(2.22)	(1.34)	0.81	(0.16)	0.78	11.00	2.35

नोट्स:

- उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 12 फरवरी, 2026 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किया गया है। सांघिक लेखा परीक्षा की लेखापरीक्षित रिपोर्ट बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दायर की गई है।
- उपरोक्त संशोधित चर्ची (सूचीबद्धता वाधित और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों (यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। परिणामों के निवारित प्रारूप में विवरण स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dcm.in पर उपलब्ध है।
- 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के विस्तृत अनकंजित वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए वक्खार कोड के माध्यम से देखे जा सकते हैं:

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 12 फरवरी, 2026





आनंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: हाउस नं. 304, आजाद पुरा ललितपुर-284403 उत्तर प्रदेश
वेबसाइट: www.anandprojects.com, फोन नं.: 0120-2511389,
सीआईएन: L40109UP1936PLC048200


31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अनकंजित वित्तीय परिणामों का विवरण
(रु लाख में, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			संयोजित		
		31.12.2025 को समाप्त तिमाही	31.12.2025 को समाप्त नौ माह के लिए	31.12.2024 को समाप्त तिमाही	31.12.2025 को समाप्त तिमाही	31.12.2025 को समाप्त नौ माह के लिए	31.12.2024 को समाप्त तिमाही
		अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित	अनकंजित
1	संचालन से कुल आय	30.00	90.00	30.00	30.00	90.00	30.00
2	कर पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाभ	(39.91)	386.51	(2.47)	(39.91)	386.51	(2.47)
3	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ	(57.70)	247.56	(55.14)	(57.70)	247.56	(55.14)
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]	(57.70)	247.56	(55.14)	(57.70)	247.56	(55.14)
5	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹ 10/- का अंकित मूल्य)	93.43	93.43	93.43	93.43	93.43	93.43
6	अन्य इक्विटी/अन्य रिजर्व (पुनर्निर्माण रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाया गया है	-	-	-	-	-	-
7	प्रति शेयर आय (₹ 10/- प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं) बेसिक: डायल्यूटिड:	(6.18) (6.18)	26.50 26.50	(5.90) (5.90)	(6.18) (6.18)	26.50 26.50	(5.90) (5.90)

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त विवरण सेबी (लिटिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.anandprojects.com पर उपलब्ध है। (ई-मेल आईडी: companysecretary@anandprojects.com)
- परिणाम भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।
- उपरोक्त अवधियों के लिए कंपनी के पास रिपोर्ट करने हेतु कोई असाधारण मद या असामान्य मद नहीं है।
- जहाँ आवश्यक हुआ है, आँकड़ों का पुनर्गठन/पुनर्व्यवस्था की गई है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है तथा इन्हें 12 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्थान : नोएडा
दिनांक : 12 फरवरी 2026



निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
कृते आनंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
हस्ता./—
राजेश कुमार शर्मा
पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएफओ
सीआईएन - 09388677

epaper.jansatta.com